



223333 - हज्ज के अर्कान, वाजिबात और सुन्नतें

प्रश्न

हज्ज के अर्कान, वाजिबात और सुन्नतें क्या हैं ?

विस्तृत उत्तर

हर प्रकार की प्रशंसा और गुणगान केवल अल्लाह तआला के लिए योग्य है।

हज्ज के अर्कान (स्तंभ) चार और उसके वाजिबात सात हैं, और अर्कान और वाजिबात के अलावा जो चीजें हैं वे सुन्नत हैं, और उनका वर्णन इस प्रकार है :

बहूती रहिमहुल्लाह ने “अर-रौज़ुल मुर्बे” (1/285) में फरमाया :

“हज्ज के अर्कान चार हैं : एहराम जो कि हज्ज की इबादत में दाखिल होने की नीयत करना है, इसका प्रमाण यह हदीस है : “कार्यों का आधार नीयतों पर है।”

अरफा में ठहरना, इस हदीस के आधार पर कि : “हज्ज अरफा में ठहरने का नाम है।”

तवाफे ज़ियारत (उसे तवाफे इफाज़ा भी कहा जाता है) क्योंकि अल्लाह तआला का फरमान है :

29: [وليطوفوا بالبیت العتیق]. الحج:

“और उन्हें चाहिए कि वे पुराने घर (काबा) का तवाफ करें।” (सूरतुल हज्ज: 29).

सई करना, क्योंकि हदीस में है कि : “सई करो, क्योंकि अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर सई को लिख दिया है।” इसे अहमद ने रिवायत किया है।

और उसके वाजिबात सात हैं :

उसके लिए मोतबर मीक़ात से एहराम बाँधना, अर्थात् एहराम मीक़ात से बांधा जायेगा, जहाँ तक स्वयं एहराम (हज्ज की इबादत में दाखिल होने की नीयत) की बात है तो वह रूकन (स्तंभ) है।



अरफा में सूरज डूबने तक ठहरना जो व्यक्ति वहाँ दिन के समय ठहरा है।

पानी पिलाने वालों और चरवाहों के अलावा लोगों का मिना में तश्रीक के दिनों में रात गुजारना।

पानी पिलाने वालों और चरवाहों के अलावा लोगों का मुजदलिफा में आधी रात के बाद तक रात गुजारना जो उसे इससे पहले पाया है। (कुछ विद्वान मुजदलिफा में रात बिताने को हज्ज के अर्कान में से करार देते हैं जिसके बिना वह सही नहीं हो सकता। इमाम इब्नुल कैयिम रहिमहुल्लाह का “जादुल मआद” (2/233) में इसी कथन की ओर रुझान है।)

तर्तीब (क्रम) से कंकरी मारना।

सिर के बाल मुँडाना या छोटे करवाना।

विदाई तवाफ करना।

[अगर हाजी तमत्तुअ हज्ज करने वाला है या किरान हज्ज करनेवाला है तो उसके ऊपर एक हदी (बकरी की कुर्बानी करना) अनिवार्य है, क्योंकि अल्लाह तआला का कथन है :

فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلَهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ [البقرة : 196].

"जिसने हज्ज तक उम्रा का लाभ उठाया तो जो हदी (कुर्बानी का जानवर) उपलब्ध हो उसकी कुर्बानी करे। फिर जो व्यक्ति (कुर्बानी का जानवर) न पाए तो वह तीन रोज़े हज्ज के दिनों में रखे और सात रोज़े उस समय जब तुम घर लौट आओ। ये पूरे दस (रोज़े) हैं। यह हुक्म उस व्यक्ति के लिए है जिसके घर वाले मस्जिदे हराम के पास न रहते हों।" (सूरतुल बकरा : 196).]

इनके अलावा हज्ज के शेष कार्य और कथन सुन्नत हैं, जैसे - तवाफ कुदूम, अरफा की रात मिना में रात बिताना, इज्तिबाअ और रमल करना उनकी जगहों पर, हज्जे अस्वद को चुंबन करना, अज़कार और दुआयें, सफा व मरवा पर चढ़ना।

उम्रा के अर्कान तीन हैं : एहराम, तवाफ, और सई।

और उसके वाजिबात : सिर के बाल मुँडाना या छोटे करवाना, मीकात से एहराम बाँधना है।" अंत हुआ।

रूकन, वाजिब और सुन्नत के बीच अंतर : यह है कि रूकन के बिना हज्ज सही नहीं होता है, और वाजिब के छोड़ने के साथ हज्ज सही हो जाता है, परंतु उसके छोड़नेवाले पर जमहूर के निकट एक दम (बकरी की कुर्बानी) अनिवार्य है। रही बात



सुन्नत की तो उसके छोड़नेवाले पर कोई चीज़ अनिवार्य नहीं है।

इन अर्कान, वाजिबात और सुन्नत के प्रमाणों, और उनसे संबंधित अहकाम को जानने के लिए देखिए : “अश-शर्हुल मुम्ते” (7/380-410).